

IndiaMART InterMESH Ltd.

6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P. Call Us: +91 - 9696969696 E: customercare@indiamart.com Website: www.indiamart.com

October 28, 2023

To, **BSE Limited** (BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited

(NSE: INDIAMART)

Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the Subject: quarter and half year ended September 30, 2023

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisements published in the following newspapers on October 28, 2023 with respect to Audited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023:

- Mint (English Language National Daily Newspaper All India); and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investor.indiamart.com/CorporateAnnouncements.aspx

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava) Group General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer Membership No: F5164

Encl: As above





Jubilant Pharmova Limited

Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubilantpharmova.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267437

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30 September 2023

С	onsolidated U	naudited Fina	ncial Results			(₹ in million)
		Quarter Ended	I	Half Yea	r Ended	Year Ended
Particulars	30 September	30 June	30 September	30 September	30 September	31 March
Particulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	2023	2023	2022	2023	2022	2023
Total income from operations	16,803	15,869	15,995	32,672	30,512	62,817
Net profit before tax and exceptional items	980	252	932	1,232	1,623	846
Net profit before tax (after exceptional items)	980	252	364	1,232	1,055	278
Net profit/(loss) after tax and exceptional items	621	60	49	681	517	(649)
Total comprehensive income after tax (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	963	158	715	1,121	2,341	1,556
Equity share capital	158	158	159	158	159	159
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)						53,834
Earnings per share of ₹ 1 each (not annualized for the quarters)						
Basic (₹)	3.94	0.40	0.34	4.34	3.30	(3.83)
Diluted (₹)	3.94	0.40	0.34	4.34	3.30	(3.83)

Standalone Unaudited Financial Results

(₹ in million)

		Quarter Ended	i	Half Yea	r Ended	Year Ended			
Destinators	30 September	30 June	30 September	30 September	30 September	31 March			
Particulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
	2023	2023	2022	2023	2022	2023			
Total income from operations	1,863	2,174	2,229	4,037	4,275	8,101			
Net profit before tax and exceptional items	2	23	982	25	917	793			
Net profit before tax (after exceptional items)	2	23	982	25	917	793			
Net (loss)/profit after tax and exceptional items	(4)	19	918	15	866	499			
Total comprehensive (loss)/income after tax (comprising (loss)/profit for the period after tax and other comprehensive (loss)/income after tax)	(6)	17	920	11	870	512			
Equity share capital	159	159	159	159	159	159			
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)						23,986			
Earnings per share of ₹ 1 each (not annualized for the quarters)									
Basic (₹)	(0.03)	0.12	5.77	0.09	5.44	3.13			
Diluted (₹)	(0.03)	0.12	5.77	0.09	5.44	3.13			


- The consolidated and the standalone unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 27 October 2023. These results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the guarter and half year ended 30 September 2023 is available under Investors section of our website at www.jubilantpharmova.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Pharmova Limited

Place: Noida Priyavrat Bhartia Date : 27 October 2023 Managing Director







Catch up on all the stories from Nikhil Taneja on mental health



Scan the QR code.



indiamart

IndiaMART InterMESH Limited

CIN: L74899DL1999PLC101534

Regd.office :- 1" Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subhash Marg, Delhi-110002,India
Phone : (+91) (11) 3027 2100, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the quarter and six months period ended September 30, 2023 (INR Million except per share data)

		(Quarter ende	d	Six Mont	Year ended	
	Particulars		June 30, 2023 Audited	September 30, 2022 Audited	September 30, 2023 Audited	September 30, 2022	March 31, 2023 Audited
1.	Total Income	Audited 3,293			6,685	Audited 5,128	11,659
2.	Income from operations	2,947	2,821	2,406	5,768	4,652	9,854
3.	Net Profit for the period (before Tax, but after			,			,
	share of associate)	933	1,124	927	2,057	1,434	3,713
4.	Net Profit for the period after tax	694	831	684	1,525	1,151	2,838
5.	Total comprehensive income for the period						
	[comprising profit for the period (after tax) and						
	other comprehensive income (after tax)]	703	830	721	1,533	1,191	2,883
6.	Equity Share Capital	599	612	306	599	306	306
7.	Other equity (excluding revaluation reserves, if any)						20,279
8.	Basic and diluted earnings per share (Face Value						
	of INR 10 each) (In INR.)						
	Basic EPS	11.36	13.60	11.23	24.96	18.86	46.48
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	
	Diluted EPS	11.34	13.57	11.18	24.91	18.77	46.32
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	

- 1. The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- 2. The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com
- 3. During the period ended September 30, 2023, the Company has issued and allotted 30,614,574 fully paid up Bonus Equity shares of INR 10 each on June 22, 2023 in the ratio of 1:1 (i.e. 1 Bonus Equity shares for every 1 existing equity share of the Company) to the shareholders who held shares on June 21, 2023 i.e. Record date. Considering the bonus issue, earnings per share has also been adjusted for all the previous periods/year presented, in accordance with Ind AS 33, Earnings per share.
- 4. The Board of Directors at its meeting held on July 20, 2023, approved a proposal to buy-back upto 12,50,000 equity shares of the Company for an aggregate amount not exceeding INR 5,000 Million, being 2.04% of the total paid up equity share capital at 4,000 per equity share. A Letter of Offer was made to all eligible shareholders. The Company bought back 12,50,000 equity shares out of the shares that were tendered by eligible shareholders and extinguished the equity shares on September 25, 2023. Capital redemption reserve was created to the extent of share capital extinguished of INR 12.50 Million. The buyback results in a cash outflow of INR 6,198.67 Million (including transaction costs of INR 36.78 Million and tax on buyback of INR 1,161.89 Million). The Company funded the buyback from its free reserves including Securities Premium as explained in Section 68 of the Companies Act, 2013.

5. The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and six months period ended September 30, 2023 is given below:

(Amount in INR Million)

	Q	uarter ende	:d	Six Mont	Year ended	
Particulars	September 30, 2023 Audited	June 30, 2023 Audited	September 30, 2022 Audited	September 30, 2023 Audited	September 30, 2022 Audited	March 31, 2023 Audited
Total Income	3,131	3,213	2,660	6,344	4,766	10,517
Income from operations	2,807	2,676	2,291	5,483	4,424	9,388
Net Profit before tax	1,068	1,240	962	2,308	1,486	3,453
Net Profit after tax	829	953	742	1,782	1,231	2,722

For and on behalf of the Board of Director IndiaMART InterMESH Limite

Dinesh Chandra Agarwal Place : Noida Date : October 27, 2023 (Managing Director and Chief Executive Officer)



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा-1(पी-2), ग्रेटर नौएडा <u>Toll Free No. 18001808296</u> वेबसाइट**ः www.yamunaexpresswayauthority.co**m

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/29/2023

दिनांक : 26.10.2023

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर निम्न काश्तकारों से भिम क्रय किया जाना प्रस्तावित है -सैक्टर-32 ग्राम वीरमपुर, चकवीरमपुर, कुरैब व सैक्टर 28 व 29 ग्राम तिरथली, सैक्टर 29 करौली बांगर

क्रम सं0	ग्राम का नाम/सैक्टर	खाता संख्या	गाटा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आघार पर काश्तकार का हिस्सा	
1	सैक्टर—32 वीरमपुर	09	52	3.7330	कमला देवी पत्नी ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1/20 भाग	0.1866
2	सैक्टर—32 चकवीरमपुर	116	373मि	0.2510	रहुआ पुत्र ननुआ निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	ti.	0.2510
3	सैक्टर—32 चकवीरमपुर	129	360मि	0.2420	रूगराज पुत्र मोती निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	सम्पूर्ण भाग	0.2420
4	सैक्टर—28 तिरथली	157	20	0.5350	सुरता पत्नी प्रेमराज शर्मा निवासी ग्राम शाकीपुर तह0 सदर जिला गौतमबुद्धनगर	1/4 भाग	0.1338
5	सैक्टर—29 तिरथली	231	668	1.6250	उवेश पुत्र फरहत माशूक निवासी ग्राम तिरथली पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	में से	0.0843
6	सैक्टर—29 तिरथली	34	144	2.0400	सतीश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम डावरा तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर	में से	0.0211
7	सैक्टर— 29 करौली बांगर	83 82	534 443	0.0930 0.1140	किंग्स वुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि0 द्वारा डायरेक्टर सौरभ गुप्ता पुत्र सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी शंकर पुर पूर्वी दिल्ली	सम्पूर्ण भाग	0.0930 0.1140
8	सैक्टर— 32 कुरैब	401	95	0.3050	रामचन्दर ईश्वर, दशरथ पुत्रगण किशन निवासी अटटा गुजरान	में से	0.0126
9	सैक्टर— 32 कुरैब	401	95	0.3050	इन्द्रपाल, धर्मराज पुत्रगण किशन, मन्ती पत्नी किशन निवासी अटटा गुजरान	में से	0.0128

उपरोक्त भिम क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी

Telephone: 011-23311263-64: E-mail ID: investors@irctc.com; Website: www.irctc.com **NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that 132°d meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 7th November, 2023, inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2023, and to declare Interim Dividend for FY 2023-24, if any.

The Company has fixed Friday, November 17, 2023 as "Record Date" to determine the eligibility of shareholders for payment of the said Interim Dividend, if declared by the Board of Directors, pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This information is also available on website of the Company at www.irctc.com and also on the website of Stock exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED

Company Secretary and Compliance Officer

RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED

Regd. Off: "Reliable House", A-6, Koh-e Indore Road, Bhopal – 462001 (M.P.)

COMPANY NOTICE

In terms of the Reg. 47 of SEBI (LODR)
Regulation 2015, Notice is hereby
given that the Board of Directors of the
Company shall meet on Thursday the
09th Day of November, 2023 at 4.30
P.M. to consider, inter-alia, and approve
financial results of the company for the
quarter and six months ended 30th,
September, 2023

September, 2023.
The Notice is also available the website of the Company 'Noorussabahpalace.com' and BSE vebsite www.bseindia.com For Reliable Ventures India Limited

Place : Bhopal Date : 26/10/2023

रजिस्टार

Chikan Work

Traditional Embroider

श्रद्धालु रामलला की शयन आरती काभी दर्शन करेंगे

नई व्यवस्था

अयोध्या, सवाददाता। श्रीरामजन्म भूमि में विराजमान रामलला के शयन आरती के दर्शन की व्यवस्था शीघ्र दर्शनार्थियों को मिल सकेगी। इसके लिए श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मंथन चल रहा है।

इस कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय सेवा के अफसरों के पहले बैच को तीर्थ क्षेत्र की विशेष अनुमित से शयन आरती में दर्शन का अवसर मिला। रामलला की शयन आरती का समय रात्रि में 8:30 बजे निर्धारित है। अब तक सुरक्षा व्यवस्था के कारणों से शयन आरती के लिए पास निर्गत नहीं

किया जाता था।
श्रीरामजन्म भूमि के परम्परागत
पूजा विधान में अलग-अलग पहरों
में विराजमान रामलला की पांच बार
आरती की आवृत्ति की जाती है। सुबह
6 बजे मंगला व शृंगार आरती होती
है। इसके बाद मध्याहन सवा 12 बजे
राजभोग आरती पुनः अपराहन 1:45
बजे धूप-दीप आरती की जाती है।
इसके उपरांत 7:15 बजे संध्या

यूएपीए केस में

जमानत मांगी

अमित चक्रवर्ती ने

नई दिल्ली, प्र.सं.। समाचार पोर्टल

न्यूजिक्लक के मानव संसाधन विभाग के प्रमख अमित चक्रवर्ती

ने उनके खिलाफ गैरकानूनी

गतिविधि निरोधक कान्न

(यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में

जमानत के लिए अदालत का रुख

उनके वकील ने यह जानकारी

दी।न्यूजक्लिक द्वारा चीनी दुष्प्रचार

के प्रसार के लिए कथित रूप से धन

लेने के मामले में चक्रवर्ती के

खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया

है।न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर

पुरकायस्थ ने भी अदालत का रुख

किया है और मामले में पुलिस द्वारा

जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को

वापस करने का निर्देश देने का

अनुरोध किया है। पटियाला हाउस

स्थित विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर

की अदालत ने शुक्रवार को दोनों

किया है।

क्षेत्र दर्शनार्थियों के लिए कर रहा मंथन प्राण प्रतिष्टा के लिए

श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ

प्राण प्रतिष्ठा के लिए आरक्षियों को प्रशिक्षण

अयोध्या। श्रीरामजन्म भूमि में विराजमान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जल–थल व नभ तीनों स्तरों पर योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इसी कड़ी में सरयू नदी में नयाघाट से लेकर गुप्तारघाट के बीच तीन रेस्क्यू डेस्क निर्माण का काम शुरू किया गया है। इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग में फ्लोटिंग बैरियर के साथ रेस्क्यू डेस्क का निर्माण शामिल हैं जबिक दुसरे भाग में 77 आरक्षियों व गोताखोरों को प्रशिक्षित किए जाने की भी योजना है।

आरती की जाती है और अंत में शयन आरती होती है। विराजमान रामलला के दर्शन की अवधि निर्धारित है।

जौहर ट्रस्ट को दी जमीन शिक्षा विभाग वापस लेगा

लखनऊ। सपा सरकार ने अपने तत्कालीन काबीना मंत्री मो. आजम खां के प्रभुत्व वाले जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षाविभागकी 41181 वर्ग फीट जमीन मात्र 100 रुपये सालाना किराए पर दे दी थी। विभाग अपनी यह जमीन अब वापस लेने जा रहा है। इस संबंध में विभाग के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।

तत्कालीन सपा सरकार के मंत्रि परिषद ने फरवरी 2007 में रामपुर के पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 41181 वर्ग फीट जमीन को मौलाना मोहम्मद अली अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए मात्र 100 रुपये वार्षिक किराए पर पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था। विद्यालय के इस जमीन पर जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय स्थापित था।

बैंक धोखाधड़ी में फार्मा कंपनी के टिकानों पर छापे

कलंक के खिलाफ

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित 1600 करोड़ रुपये से अधिक बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ से संचालित फार्मास्युटिकल कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स और उसके प्रवर्तकों के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकूला और अंबाला में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा 2021 में कंपनी और

उसके प्रवर्तकों विनीत गुप्ता और

 दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत कुल 17 स्थानों पर कार्रवाई

प्रणव गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है।

स्त्रों के मुताबिक, एजेंसी सोनीपत से संचालित अशोक विश्वविद्यालय के कुछ दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, क्योंकि कंपनी के निदेशक विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता पूर्व में उक्त शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे। दोनों ने सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद 2022 में विश्वविद्यालय के सभी बोर्ड और समितियों से इस्तीफा दे दिया था। संस्थान ने तब मामले से किसी तरह से जुड़े होने से इनकार किया था।

चंद्रयान ने दो टन मिट्टी सेबनायाथा 'इजेक्टा हेलो'

नई दिल्ली, एजेंसी। जब चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर इस साल 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो एक कमाल की घटना घटी थी। विक्रम ने चांद की सतह पर 2.06 टन से ज्यादा मिट्टी को उड़ाकर 108 वर्ग मीटर क्षेत्र में 'इजेक्टा हेलो' बनाया था। इसरो ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

इस घटना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 ऑबिंटर में लगे ऑबिंटर हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे की मदद ली। विक्रम के उतरने से कुछ घंटे पहले और बाद में मिले हाई-रिजॉल्यूशन पैनक्रोमेटिक इमेजरी का अध्ययन किया गया। इससे 'इजेक्टा हेलों' का पता चला जो लैंडर के चारों तरफ एक अनियमित चमकीले पैच के रूप में दिखाई दिया। यह खोज ऐसी घटनाओं के दौरान चांद की सतह पर मौजूद सामग्रियों के व्यवहार के

बारे में जानकारी देती है। साथ ही

चांद की सतह के अनुसंधान और



 108 वर्ग मीटरमें फैल गईथी मिट्टी, चांद पर गोलाकार आकृति बनी

ज्यादा समझ के लिए नए रास्ते खोलती है। यह जानकारी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेॅसिंग में प्रकाशित की गई है।

क्या है 'इजेक्टा हेलो': चंद्रयान-3 के लैंडर ने जब चांद की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की थी तो वहां मौजूद मिट्टी आसमानमें उड़ने लगी थी। चांद की सतह की मिट्टी टेलकम पाउडर से भी अधिक पतली है। चांद पर शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा जैसे किसी हेलिकॉप्टर के उतरने पर धरती पर धूल उड़ा करती है।

Place - New Delhi

Date - October 27, 2023



Extra fine Fabrics
Cotton
Linen
Silk
Handloom

Extra fine Fabrics

Kurta Pajama
An attire that symbolizes tradition and com

An attire that symbolizes tradition and comfort

By Economy Sales: 9212758425

- Gymkhana club, Sector 29, (Near Hotel Crown Plaza

Fashion Fabrics
 GURUGRAM- Gymkhana club, Sector 29, (Near Hotel Crown Plaza)
 PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
 WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
 JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
 NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP

• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

EACH TIME THEIR SUNGLASSES GET A COMPLIMENT,

YOUR CLIENT WILL THINK OF YOU.



THIS DIWALI, GIFT YOUR CLIENTS CARRERA SUNGLASSES AND LEAVE A LASTING IMPRESSION.

WHATSAPP YOUR VISITING CARD ON THE FOLLOWING NUMBERS OR EMAIL FOR FURTHER DETAILS.

ASHUTOSH.VAIDYA@SAFILO.COM 76060 80957, 83085 04403





सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक शैक्षिक संस्थान) ई.एम.बाईपास रोड, पी.ओ.: पंचसायर, कोलकाता-700094

रोजगार सूचना

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन, में प्रतिनियुक्ति(अल्पाविध अनुबंध सहित)/अनुबंध आधार पर **निदेशक** के पद की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

- **1. वेतनमान-**वेतन स्तर-14 (रु. 144200-रु. 218200/-) सातवें सीपीसी के अनुसार (संशोधन पूर्व पीबी-4 अर्थात् रु. 37,400- रु. 67,000/-) + ग्रेड पे रु. 10,000/-
- 2. आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध अनुबंध सिंहत) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा अनुबंध की स्थिति में, अनुबंध की अविध 3 (तीन) वर्षों के लिए होगी जिसे 6 वर्ष तक अथवा 60 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 3. शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं और अन्य विवरण के लिए: www.srfti.ac.in लॉग इन करें।
- **4. आवेदनों के प्राप्ति की अंतिम तिथिः** एम्लॉयमेंट न्यूज में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के अंदर।
- सीबीसी 22107/12/0009/2324

M indiamart

IndiaMART InterMESH Limited

CIN: L74899DL1999PLC101534

Regd.office :- 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subhash Marg, Delhi-110002,India
Phone : (+91) (11) 3027 2100, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com
Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the
quarter and six months period ended September 30, 2023 (INR Million except per share data)

		,	auarter ende	a	SIX Mont	Year ended	
	Particulars	September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income	3,293	3,392	2,872	6,685	5,128	11,659
2.	Income from operations	2,947	2,821	2,406	5,768	4,652	9,854
3.	Net Profit for the period (before Tax, but after						
	share of associate)	933	1,124	927	2,057	1,434	3,713
4.	Net Profit for the period after tax	694	831	684	1,525	1,151	2,838
5.	Total comprehensive income for the period						
	[comprising profit for the period (after tax) and						
	other comprehensive income (after tax)]	703	830	721	1,533	1,191	2,883
6.	Equity Share Capital	599	612	306	599	306	306
7.	Other equity (excluding revaluation reserves, if any)						20,279
8.	Basic and diluted earnings per share (Face Value						
	of INR 10 each) (In INR.)						
	Basic EPS	11.36	13.60	11.23	24.96	18.86	46.48
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	
	Diluted EPS	11.34	13.57	11.18	24.91	18.77	46.32
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	

1 Th

- The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.
- 3. During the period ended September 30, 2023, the Company has issued and allotted 30,614,574 fully paid up Bonus Equity shares of INR 10 each on June 22, 2023 in the ratio of 1:1 (i.e. 1 Bonus Equity shares for every 1 existing equity share of the Company) to the shareholders who held shares on June 21, 2023 i.e. Record date. Considering the bonus issue, earnings per share has also been adjusted for all the previous periods/year presented, in accordance with Ind AS 33, Earnings per share.
- 4. The Board of Directors at its meeting held on July 20, 2023, approved a proposal to buy-back upto 12,50,000 equity shares of the Company for an aggregate amount not exceeding INR 5,000 Million, being 2.04% of the total paid up equity share capital at 4,000 per equity share. A Letter of Offer was made to all eligible shareholders. The Company bought back 12,50,000 equity shares out of the shares that were tendered by eligible shareholders and extinguished the equity shares on September 25, 2023. Capital redemption reserve was created to the extent of share capital extinguished of INR 12.50 Million. The buyback results in a cash outflow of INR 6,198.67 Million (including transaction costs of INR 36.78 Million and tax on buyback of INR 1,161.89 Million). The Company funded the buyback from its free reserves including Securities Premium as explained in Section 68 of the Companies Act, 2013.
- The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and six months period ended September 3 2023 is given below: (Amount in INR Million

	u u	uarter enue	;u	SIX WIOTIL	rear enueu	
Particulars	September 30, 2023 Audited	June 30, 2023 Audited	September 30, 2022 Audited	September 30, 2023 Audited	September 30, 2022 Audited	March 31, 2023 Audited
Total Income	3,131	3,213	2,660	6,344	4,766	10,517
Income from operations	2,807	2,676	2,291	5,483	4,424	9,388
Net Profit before tax	1,068	1,240	962	2,308	1,486	3,453
Net Profit after tax	829	953	742	1,782	1,231	2,722
				For and on be	half of the Boa	rd of Directors

IndiaMART InterMESH Limited Sd/ Dinesh Chandra Agarwa

Date : October 27, 2023 (Managing Director and Chief Executive Of

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office : Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: +91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76, and the control of the control

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

INR in million, except per share data

			Quarter ended		Half Year	Year ended	
Sr. No	Particulars	September 30, 2023 Unaudited	June 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
1	Total Income from Operations	370,621	323,269	299,308	693,890	564,306	1,175,229
2	"Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)"	47,986	31,902	26,283	79,888	39,501	101,591
3	"Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)"	37,165	24,851	20,615	62,016	30,743	80,492
4	"Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]"	40,683	25,637	23,450	66,320	35,843	81,085
5	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
6	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet						602,310
7	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	123.03	82.27	68.24	205.30	101.77	266.46
	(b) Diluted	123.03	82.27	68.24	205.30	101.77	266.46
		·			·	·	

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

INR in million, except per share data

					•	NR in million, excep	i pei silale uata
			Quarter ended		Half Year	Year ended	
Sr. No	Particulars	September 30, 2023 Unaudited	June 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
1	Total Income from Operations	370,728	323,385	299,425	694,113	564,542	1,175,713
2	"Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)"	48,481	32,314	26,786	80,795	40,258	103,231
3	"Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)"	37,643	25,252	21,125	62,895	31,487	82,110
4	"Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]"	41,162	26,044	23,965	67,206	36,596	82,704
5	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
6	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet						616,403
7	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	124.61	83.59	69.93	208.21	104.23	271.82
	(b) Diluted	124.61	83.59	69.93	208.21	104.23	271.82

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Hisashi Takeuchi) Managing Director & CEO